



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

18 दिसंबर, 2020

संख्या 51

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*

मद	2019		2020		घट – बढ़	
	13 दिसंबर		4 दिसंबर		सप्ताह	
	1	2	3	4	5	वर्ष
1 जारी नोट	2258723	2746822	2758420	11598	499697	
1.1 संचलन में नोट	2258713	2746809	2758409	11600	499696	
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	10	13	11	-2	1	
2 जमा राशियां						
2.1 केंद्र सरकार	101	101	100	-1	-1	
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना						
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	1	1	
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	530600	476750	445715	-31035	-84885	
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4406	5613	5262	-351	856	
2.6 अन्य बैंक	33916	28193	29254	1061	-4662	
2.7 अन्य	340307	957835	980179	22344	639872	
3 अन्य देयताएं	1116870	1469301	1462455	-6846	345585	
कुल देयताएं / आस्तियां	4284965	5684657	5681428	-3229	1396463	
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3016352	3994646	3978966	-15680	962614	
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	191029	263660	265223	1563	74194	
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1002017	1284536	1284457	-79	282440	
4 ऋण और अग्रिम						
4.1 केंद्र सरकार	31003	—	—	—	-31003	
4.2 राज्य सरकारें	10609	10576	13017	2441	2408	
4.3 नाबार्ड	—	25833	25833	—	25833	
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	21493	77097	77097	—	55604	
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—	
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—	
4.8 अन्य	4433	19693	27721	8028	23288	
5 खरीदे और भुनाए गए बिल						
5.1 वाणिज्यिक	—	—	—	—	—	
5.2 खजाना	—	—	—	—	—	
6 निवेश	1964	1964	1964	0	—	
7 अन्य आस्तियां	6065	6652	7150	498	1085	

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	11 दिसंबर 2020 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4261092	578568	-14269	-778	658937	100761	1041743	124076
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3950143	536344	-15597	-1042	616328	94131	957920	113923
1.2 स्वर्ण	265223	36012	1563	284	34696	5433	74194	9043
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11070	1503	-47	-3	270	70	844	59
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	34657	4709	-188	-16	7644	1126	8785	1051

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

18 दिसंबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹440310 करोड़	2020													
	5 दिसंबर	6 दिसंबर	7 दिसंबर	8 दिसंबर	9 दिसंबर	10 दिसंबर	11 दिसंबर	12 दिसंबर	13 दिसंबर	14 दिसंबर	15 दिसंबर	16 दिसंबर	17 दिसंबर	18 दिसंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	437372	437045	435477	435509	436778	435779	445715							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	99.3	99.3	98.9	98.9	99.2	99.0	101.2							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	4 दिसंबर 2020 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	205752	4378	8830	-28596	37368	20094
1.2 बैंकों से उधार	43869	3551	-20676	-20132	-15282	-14913
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	17243	758	-3279	1079	-1316	5382
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14591773	221339	532280	1024281	1221420	1485722
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.5	4.2	7.5	10.3	11.3
2.1.1 मांग	1600210	88694	-131301	-16793	179133	220224
2.1.2 मीयादी	12991563	132645	663581	1041074	1042288	1265498
2.2 उधारियां	252637	-11385	-49197	-56802	-12457	-76420
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	605096	-31513	17845	1420	53251	43605
3 रिज़र्व बैंक से उधार	77097	-37614	-165963	-208526	-75293	62372
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	562192	4089	-20300	-61254	73440	-58091
4.1 उपलब्ध नकदी	85443	-1173	5289	-1817	7637	5278
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	476750	5262	-25589	-59436	65803	-63368
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	153650	7776	-81061	-1751	-63578	11663
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7626	-1619	-16986	-12647	-14178	-7640
5.3 बैंकों को अग्रिम	21605	779	-4981	-8927	-6432	-3050
5.4 अन्य आस्तियां	28983	-1628	-8193	-25049	6733	-5702
6 निवेश	4489009	63684	379822	741659	309019	728130
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.4	11.2	19.8	9.0	19.4
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4487564	63710	371959	748868	300312	736603
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1445	-27	7863	-7208	8708	-8473
7 बैंक ऋण	10504536	69655	162961	133675	728431	569852
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.7	1.7	1.3	7.9	5.7
7 क.1 खाद्य ऋण	95913	6956	83054	44149	45219	-28751
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10408623	62699	79907	89527	683212	598604
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10335669	66594	209556	186160	737615	604119
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	22987	-930	-2072	-2671	4703	-1165
7 ख.3 भुनाए गए	99609	2539	-32695	-46074	-10097	-25992
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	17104	773	-2813	-3353	-827	-4670
7 ख.5 भुनाए गए	29167	679	-9015	-387	-2964	-2440

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	13 दिसंबर	13 नवंबर	20 नवंबर	27 नवंबर	4 दिसंबर	11 दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	3.88	..	3.85	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	72.61	..	71.99	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	7.97	..	13.05	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	30.79	..	30.76	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	84.44	..	72.41	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.95/9.40	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.30/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.65/8.00	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.20/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	4.98	3.20	3.13	3.10	3.07	3.12
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.00	3.14	2.98	2.93	3.05	3.11
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.19	3.35	3.34	3.26	3.32	3.35
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.25	3.45	3.42	3.39	3.39	3.45
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.99	5.91	5.92	5.84	5.83	5.91
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	70.72	74.67	74.16	73.80	73.74	73.59
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	78.97	88.15	88.15	88.02	89.64	89.47
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.65	3.37	3.32	3.36	3.58	3.47
3-माह	3.73	3.54	3.56	3.52	3.58	3.51
6-माह	4.30	4.07	4.18	4.23	4.33	4.24

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीकी/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	4 दिसंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	18161894	223955	1.2	732705	4.7	1361931	8.1	1566118	10.7	1997123	12.4
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2677774	4240	0.2	132336	6.4	328026	14.0	252767	13.1	493229	22.6
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1721751	88813	5.4	-125853	-7.7	-15941	-0.9	187112	14.2	221092	14.7
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13720491	130927	1.0	725606	6.2	1046475	8.3	1119258	9.9	1273282	10.2
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41879	-25	-0.1	617	1.9	3371	8.8	6981	27.5	9520	29.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5824949	133435	2.3	651162	14.8	864587	17.4	601438	13.6	785296	15.6
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	1091996	68049		262417		99804		283152		27628	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4732953	65386	1.4	388745	10.8	764783	19.3	318286	8.7	757668	19.1
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11161537	69153	0.6	199555	1.9	122893	1.1	781325	8.0	579263	5.5
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	10876	-1297		-8469		-2290		-1940		3982	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11150661	70450	0.6	208024	2.0	125183	1.1	783265	8.0	575281	5.4
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4499773	5994	0.1	369819	12.0	698737	18.4	535920	18.4	1059114	30.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26541	-	-	291	1.1	193	0.7	392	1.5	362	1.4
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3026427	3350905	-15374	-0.5	488122	20.0	324479	10.7	352956	13.7	426913	14.6
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1378342	1467815	2871	0.2	74122	7.0	89473	6.5	57821	5.4	334898	29.6

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	11 दिसंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3307522	-18340	-0.6	115108	4.2	277815	9.2	256264	9.7	421933	14.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2785027	11600	0.4	148121	6.9	337716	13.8	260996	12.9	500136	21.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	480231	-30325	-5.9	-33047	-5.5	-63657	-11.7	-8681	-1.5	-88691	-15.6
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	42264	385	0.9	34	0.1	3756	9.8	3949	14.2	10488	33.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1113815	21819		242328		121623		250487		69536	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1100841	19379		233239		111100		246929		67129	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-621589	-41533		-428630		-420696		-387931		-345810	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-632742	-41810		-419664		-418683		-385797		-350566	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4249129	-5990	-0.1	358573	12.6	658726	18.3	395405	14.1	1041969	32.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26618			291	1.1	271	1.0	392	1.5	440	1.7
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1378342	1460451	-7364	-0.5	57454	5.4	82109	6.0	2089	0.2	344202	30.8

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				5	6					
7 दिसंबर 2020	-	681403	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-681307
8 दिसंबर 2020	-	677259	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-677259
9 दिसंबर 2020	-	669171	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-98	-669267
10 दिसंबर 2020	-	741423	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-741388
11 दिसंबर 2020	-	735725	-	-	0	-	-	-	5	-	-	-	-	-735720
12 दिसंबर 2020	-	987	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-873
13 दिसंबर 2020	-	299	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-262

* इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

** 'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिह्न विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अक्तूबर	नवंबर	अक्तूबर	नवंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	147.2	148.6	158.4	158.9	0.3	6.9	6.9
1.1 ग्रामीण	148.3	149.9	159.8	160.7	0.6	7.3	7.2
1.2 शहरी	146.0	147.0	156.7	156.9	0.1	6.5	6.7
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	119.5	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	122.0	122.3	123.8	124.2	0.3	3.2	1.6
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	145.5	147.2	152.4	151.2	- 0.8	10.0	2.7
3.2 ईंधन और बिजली	102.3	101.3	91.1	91.3	0.2	- 8.2	- 9.9
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.8	117.8	120.3	121.3	0.8	2.3	3.0

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
6 नवंबर 2020	76335	1687	3.83 - 3.84
20 नवंबर 2020	67680	792	3.35 - 4.54

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
15 नवंबर 2020	389427	57002	3.09 - 11.32
30 नवंबर 2020	373146	64386	2.79 - 8.80

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	13 दिसंबर 2019	4 दिसंबर 2020	11 दिसंबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	20606	8164	13477
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	681	4631	866
3 सीबीएलओ#	352328	521592	406200
4 बाजार रेपो	234024	388895	314587
5 कॉर्पोरेट बांड में रेपो	4158	1150	304

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

11 दिसंबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	1802	15492	81155	211429
182-दिवसीय	116464	37358	4248	237263
364-दिवसीय	145947	122587	12377	408160
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (11 दिसंबर 2020 तक)	2019 - 20 (13 दिसंबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (11 दिसंबर 2020 तक)	2019 - 20 (13 दिसंबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	977000	586000	710000	796935	484972	473972
2. राज्य सरकारें	514626	358295	634521	420621	254360	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।